

ROAD SAFETY WEEK

from 1st January to 7th January 2012

1. वाहन चलते समय अपने मोबाइल फोन का उपयोग न करें।
2. कृपया सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें।
3. वाहन चलते समय शराब या मादक पदार्थों का सेवन न करें।
4. वाहन की गति-सीमा पर अपना नियंत्रण रखें।
5. अनियंत्रित वाहन-चालक से दुर रहे जरूरत पड़ने से उसे आगे जाने दें।
6. ज्यादा थकान होने पर गाड़ी न चलाएँ- विराम लें।
7. दु-पहिया वाहन चलते समय हेलमेट का इस्तेमाल करें।
8. ट्राफिक नियमों का पालन करें।

SVBTC PL आपके एवं आपके परिवार की सुरक्षा के लिए सदैव प्रयत्नशील है। आपकी यात्रा मंगलमय हो।

NHAI/SVBTC PL